

Compose

Inbox 2,787

Starred

Snoozed

Important

Sent

Drafts 236

Categories

Social 3,488

Updates 3,566

Forums 105

Promotions 4,758

More

Labels +

Personal

53 of 6,071

**Application no: 201911001088**

**Grant No: 472294**

**Title - SOL-GEL SYNTHESIZED BARIUM M-TYPE HEXAGONAL FERRITES FOR HIGH DENSITY RECORDING**

**MEDIA APPLICATIO**

**Applicant - Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences**

**Inventor(s): Mr. Rohit Jasrotia, Dr. Virender Pratap singh, Dr. Rajesh Kumar, Dr. Mahavir Singh**

**School/Department/ Faculty: School of Physics & Materials. Science**

We encourage you all to take a moment to acknowledge your collective efforts and hard work. Let this achievement serve as a reminder of the incredible potential that our university holds. Together, we are shaping the future of innovation, One Patent, One Student.



**INTELLECTUAL  
PROPERTY INDIA**  
एकसूत्र/PATENTS | अभिकल्प/DESIGNS |  
व्यापार चिह्न/TRADE MARKS | भौगोलिक  
उपदर्शन/GEOGRAPHICAL INDICATIONS



**भारत सरकार**  
GOVERNMENT OF INDIA

एकसूत्र कार्यालय / THE PATENT OFFICE  
बौद्धिक सम्पदा भवन / I.P.O. BUILDING  
प्लॉट नं. 32/ PLOT NO. 32  
सेक्टर -14/ SECTOR 14, द्वारका/ DWARKA  
नई दिल्ली/NEW DELHI -110078  
दूरभाष /Tel. No.: 011-25300200  
फैक्स /Fax : 011-28034301/02/15  
ई मेल /Email : [delhi-patent@nic.in](mailto:delhi-patent@nic.in)  
वेबसाइट /Website: <http://ipindia.nic.in>

सं. \ No. 201911001088

दिनांक \ Dated the 23/11/2023

सेवा में, \ To :

Address of Service:- ISHITA RUSTAGI Effectual Legal Services Pvt. Ltd. SDF A-05, NSEZ, Noida Dadri Road, Noida Phase-II, Noida-201305, Uttar Pradesh, India.  
Email Id:- [info@effectualservices.com](mailto:info@effectualservices.com)

विषय :- पेटेंट आवेदन संख्या 201911001088 के संबंध में अधिनियम की धारा 43 के तहत पेटेंट अनुदान तथा पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि की सूचना  
Sub :- Intimation of the grant and recordal of patent under section 43 of the Act in respect of patent application no. 201911001088

महोदय/महोदया,  
Sir/Madam,

आपको सूचित किया जाता है कि पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 12 व 13 तथा उस आधार पर बने नियम के तहत उपर्युक्त पेटेंट आवेदन के परीक्षण [व 03/11/2023 को हुई सुनवाई] के उपरान्त एतद्वारा पेटेंट अनुदान किया जाता है। तथा पेटेंट अनुदान की प्रविष्टि 23/11/2023 को पेटेंट रजिस्टर में कर दी गयी है।

This is to Inform you that following the examination of above mentioned patent application under section 12 and 13 of The Patents Act, 1970 and Rules made thereunder [and hearing held on 03/11/2023 ] a patent is hereby granted and recorded in the Register of Patents on the 23/11/2023. The Patent Certificate is enclosed herewith.

पेटेंट संख्या \ Patent No	: 472294
आवेदक का नाम \ Name Of Applicant	: SHOOLINI UNIVERSITY OF BIOTECHNOLOGY AND MANAGEMENT SCIENCES
पेटेंट दिनांक \ Date of Patent	: 09/01/2019
पूर्विका तिथि \ Priority Date	: 09/01/2019
परीक्षण हेतु अनुरोध दाखिल करने की तिथि \ Filing date of Request for examination	: 22/12/2022
शीर्षक \ Title	: SOL-GEL SYNTHESIZED BARIUM M-TYPE HEXAGONAL FERRITES FOR HIGH DENSITY RECORDING MEDIA APPLICATIO
दावों की संख्या \ Number of claims	: 1
Controller' Name	: Dr. Subramaniyan S P
Controller' Email	: <a href="mailto:spsubramaniyan@nic.in">spsubramaniyan@nic.in</a>
Controller' Location	: Chennai

उपर्युक्त पेटेंट के अनुदान का प्रकाशन अधिनियम की धारा 43 के तहत पेटेंट कार्यालय के आधिकारिक जर्नल में किया जाएगा।

The grant of above mentioned patent will be published in the Official Journal of the patent Office under section 43 of the Act.

पेटेंट अधिनियम 1970 यथा संशोधित पेटेंट (संशोधन) नियम, 2005/ पेटेंट नियम, 2003 यथा संशोधित पेटेंट (संशोधन) नियम, 2016 की धारा 142 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के तहत उपरोक्त प्रविष्टि की तिथि से 3 माह के भीतर इस कार्यालय में नवीकरण शुल्क जमा किया जाना चाहिए।

The payment of renewal fee is required to be made at this office within three(3) months from the aforesaid date of recording according to the proviso in sub-section(4) of Section 142 of The Patents Act,1970, as amended by The Patents (Amendment) Act, 2005 / The Patents Rules, 2003 as amended by The Patents (Amendment) Rules, 2016.

Dr. Subramaniyan S P  
(नियंत्रक पेटेंट)  
Controller of Patents

टिप्पणी / Note :

1. संशोधित नवीकरण शुल्क हेतु कृपया महानियंत्रक पेटेंट, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न की आधिकारिक वेबसाइट [www.ipindia.gov.in](http://www.ipindia.gov.in) पर उपलब्ध पेटेंट (संशोधन) नियम 2016 की प्रथम अनुसूची (शुल्क) देखें।

For revised renewal fees kindly refer to the First Schedule (fees) of The Patents (Amendment) Rules 2016 available on the official website of Controller General of Patents, Designs and Trade Marks [www.ipindia.gov.in](http://www.ipindia.gov.in)

2. कार्यालय द्वारा पेटेंट प्रमाणपत्र की कोई भी कागजी प्रति अलग से जारी नहीं की जाएगी।

No hard copy of Patent Certificate shall be issued separately by the office.

